

Modipon Limited

Hapur Road, Modinagar, Ghaziabad -201 204 (UP) Phone (01232) 243471

Dated: 8th December 2020

To,

The Bombay Stock Exchange Ltd.

Corporate Relation Department, New Trading Ring, Rotunda Building, P.J. Tower, Dalal Street, Fort, Mumbai-400001

Ref: INE170C01019 Scrip Code: 503776

<u>Sub: Newspaper publication with respect to Annual General Meeting, e-voting facility and Book Closure of the Company from Tuesday, 22nd December 2020 to Monday, 28th December 2020 (both inclusive)</u>

Dear Sirs,

Please find attached the copy of newspaper publication with respect to Annual General Meeting scheduled on Monday, 28th December, 2020 through video conferencing at 03:00 PM, availability of e-voting facility that will commence from Friday, December 25, 2020 (9:00 am) and ends on Sunday, December 27, 2020 (5:00 pm) and closure of register of members and share transfer books from Tuesday, 22nd December 2020 to Monday, 28th December 2020 (both days inclusive).

Please take the above on record.

Thanking you

Yours sincerely,

For MODIPON LIMITED

Vinest have

Vineet Kumar Thareja

(Company Secretary and Compliance Officer)

CIN: L65993UP1965PLC003082 E-mail: modipon@modimangal.in Website: www.modipon.net

Satellite-guided machine gun

THE KILLING OF Iran's top nuclear scientist last month was carriedoutremotelywithartificial intelligence and a machine gun equipped with a "satellite-controlled smart system", Tasnim newsagencyquotedaseniorcom-

Iran has blamed Israel for the assassination of Mohsen Fakhrizadeh, who was seen by Westernintelligenceservicesasthe mastermind of a covert Iranian

programme to develop nuclear weapons capability. Tehran has long denied any such ambition. Israel has neither confirmed nor deniedresponsibilityforthekilling, and one of its officials suggested thattheTasnimreportofthetactics used was a face-saving gambit by Iran.Inthepast,however,Israelhas acknowledged pursuing covert, intelligence-gathering operations against the nuclear programme of its arch-enemy. -REUTERS

Classifieds

PERSONAL

I.Harsh Bhalla S/o Harmohinder Singh Bhalla R/o WZ-1878 Multani Mohalla Rani Bagh Delhi-110034 have changed my minor daughter name from Prisha Bhalla to Preesha Bhalla permanently.

0040557092-5

I.Harsh Bhalla S/o Harmohinder Singh Bhalla R/o WZ-1878 Multani Mohalla Rani Bagh Delhi-110034 have changed my minor son name from Ryan Bhalla to Ryaan Bhalla permanently.

0040557092-4

NORTHERN RAILWAY

Tender Notice

No. CIID/Tender/Cloak Room/DLI-1/2018 The Senior Divisional Commercial Manager/Freight, Delhi Division, Northern Railway, New Delhi invites E-Tender for work of Management and Operation of Cloakroom (on Renovate, Operate, Maintain and Transfer basis) at Delhi Railway Station for a period of 05 years. The details are as under

Tender Opening Date: 08.01.2021

S	Name of the Railway station and Location	Station Category	Type of Work	Total Area (in sq. mtr.)	Advertised Value/ Reserve Price for First year (in Rs.)	Earnest Money Deposit (EMD) in Rs.	Tender cost including GST @ 18% in Rs.	Tender No.
1	Delhi Railway Station (Main Platform near TTE Lobby, 1st Entry/ Chandni Chowk)	A-1	Work of Management and Operation of Cloakroom (on ROMT basis) at Delhi Railway Station (Main Platform near TTE Lobby, 1st Entry/Chandni Chowk)		39,76,595/-	4,57,400/-	11,800/-	CIID- CloakRoom- DLI- Dec20

Interested bidders may please visit official website for E-tendering i.e. www.ireps.gov.in for further details and submitting the

Important Note:

1. Bidders who wish to participate in the e-tendering will have to procure class-3 valid Digital Security Certificate (DSC) as per Information Technology Act, 2000. Bidders can procure this certificate from any of the certifying authority of Controller of Certifying Authorities (CCA), Government of India. Details of certifying authorities can be obtained from www.cca.gov.in . 2. The bidder has to register (if not registered earlier) with www.ireps.gov.in using DSC to participate in tender process.

Detailed procedure for registration, system requirements and bidding are also available on www.ireps.gov.in . 2731/2020 SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE

20th Floor, Dr. S.P.M. Civic Center, New Delhi-110002 E-TENDER NOTICE

SDMC invites bids from eligible bidders for E-Tender No. A&C/SDMC/RFP/20-21/01 for engaging services of an Agency through open tender for providing doorstep service to taxpayers in filing online property tax returns and collection of online property tax through Mobile Sahayaks under the jurisdiction of SDMC in a two bid system for an initial period of two (2) years starting from 1st January, 2021

The last date of submission of bids is 17th December 2020, 3:00 P.M. RFP document can be down-loaded from MCD's website www.mcdonline.nic.in and www.tenderwizard.com/SouthDMC. Deputy A&C/HQ

A&C Department SDMC

Ro No.54/DPI/S/2020-21

M.F. MUTUAL BENEFITS NIDHI LIMITED

Regd. office: 908, Kila Kona, Kali Maszid, Hapur, Uttar Pradesh 245101, India Ph.:+91 9627314099, Email:m.f.mutualbenefitsnidhilimited@gmail.com

MOHAMMAD KHALID

Meat Masjid, Ghaziabad-245101

commencement of the meeting.

2020. (Both days inclusive)

Place: Hapur, Date: 7th December, 2020.

Add: 1273 Bhanda Patti, Hapur, Uttar Pradesh

A Member entitled to attend and Vote at the AGM

is entitled to appoint proxy to attend and vote,

instead of him/her and the proxy need not be a

member. The instrument of proxy, in order to be

effective, must be duly filled, signed, stamped and

should be submitted to the Registered Office of the

Company, not later than 48 hours before the

The Register of Members shall remain closed

from 21st December, 2020 to 30th December,

Audited Financial Statements along with Auditor's

Report and Director's Report have also been affixed or

NOTICE BOARD of the Company and attendance

Due to COVID Pandemic, Local Administration

has given permission to hold AGM with a maximum

pathering of 50 participants only. Therefore, it is

mandatory for members or proxy thereof who are

interested to attend AGM to register their names

with the In-charge Head Office of the Company

at least 24 hours before meeting. Moreover, i

pursuant to guidelines issued by Administration

and Health Deptt, all participants are requested to

strictly adhere the rules of Social Distancing and

Mask since it is necessity as well as very important

Add: 1273 Bhanda Patti, Hapur, Uttar Pradesh,

in the interest of all in prevailing circumstances.

For M.F. MUTUAL BENEFITS NIDHILTD.

By order of the Board

MOHAMMAD KHALID

Meat Masjid, Ghaziabad-245101

Place: Hapur, Date: 7" December, 2020.

Add: Meetha Shahid, Kiratpur, Distt. Bijnor, U.P.

. A Member entitled to attend and Vote at the AGM

s entitled to appoint proxy to attend and vote,

instead of him/her and the proxy need not be a

member. The instrument of proxy, in order to be

effective, must be duly filled, signed, stamped and

should be submitted to the Registered Office of the

Company, not later than 48 hours before the

The Register of Members shall remain closed

from 21st December, 2020 to 30th December,

. Audited Financial Statements along with

Auditor's Report and Director's Report have

also been affixed on NOTICE BOARD of the

Company and attendance slips and Proxy

Due to COVID Pandemic, Local Administration has

given permission to hold AGM with a maximum

gathering of 50 participants only. Therefore, it is

mandatory for members or proxy thereof who are

interested to attend AGM to register their names

with the In-charge Head Office of the Company

at least 24 hours before meeting. Moreover, it

pursuant to guidelines issued by Administration

and Health Deptt, all participants are requested to

strictly adhere the rules of Social Distancing and

Mask since it is necessity as well as very important

in the interest of all in prevailing circumstances.

FOR MFK MUTUAL BENEFITS NIDHILTD.

Add: Meetha Shahid, Kiratpur, Distt. Bijnor, U.P.

Place: Kiratpur, Date: 7th December, 2020.

Status of

Possession

Constructive

Physical)

Physical

By order of the Board

MOHMMAD SAIM

(Managing Director)

commencement of the meeting.

020. (Both days inclusive)

Forms are also available there.

Place: Kiratpur, Date: 7" December, 2020.

(Managing Director)

DIN No.08570524

MOHMMAD SAIM

(Managing Director)

Regd. office: Moh. Muftiyan Kiratpur, Distt. Bijnor, U.P.246731, India

Ph.: +91-8755791584, Email: mfkba65@gmail.com

slips and Proxy Forms are also available there.

(Managing Director)

DIN No.08570524

Notice for 1" Annual General Meeting Notice is hereby given that the 1stAnnual General Meeting of M. F. MUTUAL BENEFITS NIDHILTD. will be held at 908, Kila Kona, Kali Maszid, Hapur,

modifications, as may be permissible, the following business. ORDINARY BUSINESS: -. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the period

U.P on Thursday, the 31" December, 2020 at

11:00 A.M. to transact with or without

ended 31st March, 2020 and the Reports of the 2. To appoint a Director in place of Mr. Saeed Ahmad Director (DIN- 08570523), who retires by rotation and being eligible, offers himself for

To appoint a Director in place of Mr. Mohammad Saddam, Director (DIN-08570525), who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-

appointment 4. To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as an Ordinary Resolution: -

'RESOLVED THAT that pursuant to the provisions of Section 139 and all other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and the Rules framed thereunder, as amended from time to time, the M/s Saurabh Sakshi & Associates, Chartered Accountants (Firm Registration No. 017918N), having egistered office at B-105, Preet Vihar, Delhi-110092 is hereby appointed as Auditors of the Company to hold office from the conclusion of this Annual General Meeting (AGM) till the conclusion of the AGM of the Company to be held in the year 2025 at such remuneration as may be mutually agreed between the Board of Directors of the Company and the Statutory Auditors." By order of the Board

For M.F. MUTUAL BENEFITS NIDHILTD. MFK MUTUAL BENEFITS NIDHI LIMITED

Notice for 1" Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 1st Annual

General Meeting of MFK MUTUTAL BENEFITS

NIDHILTD, will be held at Moh. Muftiyan, Kiratpur,

Distt. Bijnor, U.P.-246731 on Thursday, the 31st

December, 2020 at 11:00 A.M. to transact with or

without modifications, as may be permissible, the

. To receive, consider and adopt the Audited

Financial Statements of the Company for the period

ended 31st March, 2020 and the Reports of the

To appoint a Director in place of Mr. Mohd.

Yameen Director (DIN- 07492351), who retires

by rotation and being eligible, offers himself for

3. To appoint a Director in place of Mr.

Hassinuddin, Director (DIN- 07113114), who

retires by rotation and being eligible, offers

4. To consider and if thought fit, to pass with or

without modification(s), the following resolution as

RESOLVED THAT that pursuant to the

provisions of Section 139 and all other

applicable provisions, if any, of the Companies

Act. 2013 and the Rules framed thereunder, as

amended from time to time, the M/s Saurabh

Sakshi & Associates, Chartered Accountants

(Firm Registration No. 017918N), having

registered office at B-105, Preet Vihar, Delhi-

110092 is hereby appointed as Auditors of the

Company to hold office from the conclusion of

this Annual General Meeting (AGM) till the

conclusion of the AGM of the Company to be

held in the year 2025 at such remuneration as

may be mutually agreed between the Board of

Board of Directors and Auditors thereon

TO MEMBERS

following business.

ORDINARY BUSINESS: -

himself for re-appointment

an Ordinary Resolution: -

List of application numbers of successful applicants in the re-draw of

HTTPS://HARYANARERA.GOV.IN/

LICENCE NO.: 69 OF 2019 DATED 26.06.2019

HRERA NO.: 68 OF 2019 DATED 14.11.2019

Sector-63A, Gurugram held on Friday, 04th of December 2020, at Ground Floor, Tower A, Signature Tower, South City -1, Gurugram, Haryana-122001.

	1040.	was sdr. n			102	ornon adred	
14	1513	7430	8272	8278	8271	8273	
29	1518	7651	8274	8834			
1508	1528	7654	8275	8902			
1510	5328	7655	8276				
1511	5330	7656	8277				
		417-25					

. The re-draw of MQ category flats of SignatureGlobal Prime was held under the supervision

of DTCP officials as per the guidelines laid down in Affordable Group Housing Policy. . Confirmed Allotment list is in ascending order (Top to bottom)

Regd. Off.: Unit No. 1304 at 13th Floor Dr. Gopal Das Bhawan, 28 Barakhamba Road New Delhi-110001 Corp. Off.: Ground Floor, Tower A, Signature Tower, South City -1, Gurugram, Haryana-122001 Email: customercareldsignatureglobal.in, Ph.: 0124-4908200, 9311144624

STANDARD CAPITAL MARKETS LIMITED CIN: L74899DL1987PLC027057 8/28, WEA Abdul Aziz Road, Karol Bagh, New Delhi-110005

Notice is hereby given that:

- The 33rd Annual General Meeting of the Company will be held on Wednesday
- The Notice along with the Annual Report for the year 2019-2020, will be sent by electronic mode only to all the members whose email addresses are registered with the Compan Depository Participant(s) on 07.12.2020.
- The notice of Annual General Meeting can be viewed/ downloaded from the CDS website www.evotingindia.com. Physical copy of the same is available for inspection during office hours at the registered office of the company.
- The e-voting facility will be available from 27.12.2020, 09:00 A.M. to 29.12.2020, 5:00 P.M. after which e-voting shall not be allowed.
- after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com However, if you are already registered with CDSL for remote e-voting then you can us your existing user ID and password for casting your vote.
- have already cast their vote through remote e-voting prior to AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote at the AGM.
- Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for Members, available at www.evotingindia.com or write an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com. o contact Mr. RakeshDalvi, Deputy Manager at CDSL, A Wing, 25th Floor, Marathol Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai 400013, or at 1800-22-5533 or registered office address of the Company.

For Standard Capital Markets Limited

Place: New Delhi Date: 07.12.2020

MQ category flats in SignatureGlobal Prime, Residential Apartments,

3BHK TYPE-05 2BHK TYPE-02

14	1513	7430	8272	8278	8271	8273	
29	1518	7651	8274	8834			
1508	1528	7654	8275	8902			
1510	5328	7655	8276				
1511	5330	7656	8277				
					18	sq.mt. = 10.7639	sq.ft.

- - SIGNATUREGLOBAL (INDIA) PRIVATE LIMITED | CIN: U70100DL2000PTC104787

E-Mail Id: stancap.delhi@gmail.com, Ph. No.: 011-28759592

- 30.12.2020 at 09:30 A.M. atBG-223, Sanjay Gandhi Transport Nagar, G.T. Karnal Road Delhi-110042, to transact the business as set out in the notice of the meeting dated

- Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEB (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), the register of members and share transfer books of the Company sha remain closed from 24.12.2020 to 30.12.2020 (both days inclusive), for the said Annua
- Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rul 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulations 44 of the Listing Regulation, the Company is pleased to provide e-voting facility by Central Depository Services Limited (CDSL) to its members in respect of the business (es) to be transacted at the Annual General Meeting.
- The cut-off date for determining the eligibility to vote through electronic means or at the Any person, who acquire shares of the company and become member of compan
- Facility for voting through polling paper shall be available at the AGM. Members who
- In case of any queries or issues regarding e-voting, please refer to the Frequentl

Ghanshyam Prasad Gupta

Managing Director DIN: 00287019

PACIFIC INDUSTRIES LIMITED Registered Office: Survey No. 13, N.H.48, Kempalinganahalli

Village, Nelamangala Taluk, Bangalore-Karnataka 562123 Tel No. +91-8027723004; Fax: +91-8027723005 Corporate Office: Village Bedla, P.O. Box 119, Udaipur-313001 Tel No. +91-294-2440196, 2440388; Fax: +91-294-2440780

CIN: L14101KA1989PLC062041 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY

Email: pacificinvestor@rediffmail.com; Website: www.pacificindustriesltd.com

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 31st Annual General Meeting (AGM) of

the Company is scheduled to be held on Wednesday, 30" December, 2020 at

12.30 p.m. at the Registered Office of the Company at Survey No. 13, N.H.48.

Kempalinganhalli, Nelamangala Taluk, Bangalore – 562123 (Karnataka) through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business as set out in the notice. In view of the massive outbreak of the COVID-19 pandemic and restrictions on the movement apart from social distancing is a norm to be followed and pursuant to the Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020 and Circular No.17/2020 dated April 13, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA circulars") followed by Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, and Securities and Exchange Board of India vide its Circular No.SEBI/HO/CFD/CMD1/ CIR/P/2020/79 dated 12 May 2020 ("SEBI Circular") and in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and the SEBI (Listing obligations and disclosures Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), have permitted convening the Annual General Meeting ("AGM"/"Meeting") through VC or OAVM, without the physical presence of the Members at the common venue. The Company has been dispatch the notice of its 31"Annual General Meeting ("AGM Notice") along with the Annual report for the year 2019-20. In compliance with the above circulars, the Annual report for the year 2019-20will be send only by email to all members of the Company whose email address are registered with the Company/RTA/ and Depository Participant(DP) and the aforesaid documents are also available on Company's website www.pacificindustriesItd.com. The Company is pleased to offer e-voting facility to the members to cast their

votes electronically on all resolution set forth in the notice convening the 31"Annual General Meeting. The company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) to provide e-voting facility. In this regard. Shareholder's Demat Account/Folio Number have been enrolled by the company for the participation in e-voting on resolution placed by the evoting system. Commencement of e-Voting 26" December, 2020 at 09.00 AM End of a Vidona 20⁸ December 2020 at 05 00 DM

Elid of 6-vidolig	25 December, 2020 at 05.00 FW				
NOTICE IS ALSO HEREBY given	pursuant to Section 91 of the Companies				

Act, 2013, that the Register of Members and register of Share Transfer books of the Company shall be closed from Thursday,24th December, 2020 to Wednesday, 30th December, 2020 (both days inclusive). For the purpose of Annual General Meeting. By order of the board of Director

(J. P. AGARWAL)

With reference to this office tender notice of even no. dated 01.12.2020 issued for the work of "Hiring of full body Truck (Carrying capacity-9T) at Coach Care Centre, Delhi Sarai Rohilla for two years, following changes have been made in the Tender Notice:-

NORTHERN RAILWAY

1st CORRIGENDUM

S.No. Existing Clause 1 of The contractor shall provide The contractor shall provide Detailed Scope of road worthy total 2 nos. trucks of road worthy total 1 no. truck of work (page 21 of Tata/Ashok Layland/Eicher/ Tata/Ashok Layland/Eicher/ 34 of Tender Mahindra or other similar make, Mahindra or other similar make of 9 Ton carrying capacity for of 9 Ton carrying capacity for Coach Care Centre, Delhi Sarai Coach Care Centre, New Delhi and Hazrat Nizamuddin.

2727/2020 No. 197-S/185/Hiring-Truck/DEE/20/MC-IV Date: 04.12.2020 SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE

<u>IMPORTANT</u>

Others terms and conditions will remain same.

acceptance of advertising

copy, it is not possible to verify

held responsible for such

contents, nor for any loss or

with advertisers or otherwise

acting on an advertisement in

Registered office : AKME BUSINESS CENTRE

(ABC), 4-5 SUBCITY CENTRE SAVINA CIRCLE

OPP KRISHI UPAZ MANDI UDAIPUR RJ 313002 IN

E mail: cs@akmefintrade.com

Contact No 0294-2489501

NOTICE

ursuant to Regulation 50 and 51 of SEB

Listing Obligation and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015, we would

like to inform that meeting of the Board of

Directors of the company is scheduled to be

neld on Monday, 14th December, 2020 to

consider and approve Unaudited Financial

Results of the Company for Half yearly ended

For, Akme Fintrade (India) Limited

Anjali Pacholi

September 30th, 2020.

AKME FINTRADE

(INDIA) LIMITED

any manner whatsoever.

Pursuant to Section 13 and Rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014] Before the Regional Director (Central Government), Northern Region, New Delhi its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be damage incurred as a result of

LIMITED (CIN: U51909DL2006PTC146969) naving its registered office at HD-8, PITAMPURA NEW DELHI-110036, INDIA Notice is hereby given to the General Public that

HD-8, Pitampura, New Delhi-110036, India For and on behalf of the Applicant Company For OASIS COMMERCIAL PRIVATE LIMITED

4 days from the date of publication of this notice

with a copy to the applicant company at its

registered office at the address mentioned

Company Secretary & Compliance Officer Company Application No CA (CAA) No.12/Chd/Pb/2019 In the matter of the Companies Act, 2013

And In the matter of Scheme of Amalgamation between Bharat Starch Products Private Limited and DBH Investments Private Limited and D B H International Private Limited and Karun Carpets Private Limited

And In the matter of Sections 230 to 232 of the Companies

Act, 2013

Applicant companies incorporated under the Companies Act, 1956. having their registered office at Flat No. J-3/602, The Views, Mohali Hills, Sector-105, SAS Nagar, Mohali, Punjab – 140 306

...Applicant Companies/ Transferor(s)

This is to inform that a petition under section 230 to 232 of the

Companies Act, 2013 ("Petition") for an order sanctioning the

The present Scheme envisages amalgamation of BSP, DBHIN,

The amalgamation of Transferor Companies into Transferee Company would lead to consolidation of companies which will help in eliminating the cross holdings and attain a leaner and efficient

structure from long term perspective. Dated: December 7, 2020

Carpets	International	Investments	Starch Products
Private Limited	Private Limited	Private Limited	Private Limited
Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
Suresh Kumar	Suresh Kumar	Suresh Kumar	Suresh
Jain	Jain	Jain	Kumar Jain
Director	Director	Director	Director





("OAVM") on Monday, the 28" December, 2020 at 3.00 p.m to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of AGM. The Notice of the Meeting, Annual Report for the financial year ended March 31, 2020 and remote e-voting details have been sent in electronic mode to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company/RTA/Depository The electronic dispatch of the Annual report & AGM Notice to the shareholders has been Members who have not registered their email ID with the Company/ Depository, may send written a request to Registrar and Transfer Agents of the Company, MAS Services Limited at

attested scanned copy of Aadhar Card) in case of physical holding. Members are further requested to send their bank detail with original cancelled cheque to our RTA (i.e. MAS Services Limited, T-34 2" Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020) along with letter mentioning folio no. if not registered already.

Participant (DP) respectively. The Annual report including the AGM notice is also available on Company's website www.modipon.net, the website of CDSL https://www.evotingindia.com/ and on the website of

BSE Limited www.bseindia.com. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act,

2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and

Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to provide the facility to members to exercise their vote on the resolution proposed to be passed at the AGM by electronic voting system. The remote e-voting period commences on Friday, December 25, 2020 (09:00 am) and ends on Sunday, December 27, 2020 (05:00 pm), No e-voting shall be allowed beyond the said date and time. During this period members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of December 21, 2020, may cast their vote by remote e-voting. Any person, who acquires shares and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cutoff date i.e. December 21, 2020, may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk@cdslindia.com or RTA, MAS Services Limited at info@masserv.com. However, if the members are already registered with CDSL for remote e-voting then they can use their existing user ID and password for casting their vote. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. The facility for voting through e-voting shall be made available at the AGM and the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. Mr. Ranieet Kumar Verma, Practicing Company Secretary (Membership No. F6814 & CP No. 7463). Proprietor M/s. Ranjeet Verma & Associates, Company Secretaries, has been appointed as

imited, Hapur Road, Modinagar-201204, U.P., Phone: 01232-243471, Email: vkthareja@modimangal.in and to Registrar & Share Transfer Agent of the Company at info@masserv.com. NOTICE is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, Rule 10 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Register of the Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, the December 22,

www.bseindia.com.

For Modipon Limited Vineet Kumar Thareja

Date: 08.12.2020, Place: Lucknow financialexp.epap.in

killed top nuke scientist: Iran

mander as saying.

OSBI

Networking & Communication Dept., State Bank Global IT Centre,

Main Building, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai - 400 614. CORRIGENDUM

Please refer the EOI for Procurement of Cyber Security Threat Deception (Honeypot) Solutions dated 18-11-2020. Bank has released Corrigendum dated 08-12-2020 and can be accessed under Procurement News at https://bank.sbi.

Date: 08/12/2020

Place: Navi Mumbai

(Networking & Communication Dept.)

(Formerly known as ANANT RAJ INDUSTRIES LTD.)

Deputy General Manager

CIN: L45400HR1985PLC021622 Regd. Office: Plot No. CP-1, Sector-8, IMT Manesar, Gurugram, Haryana-122051 Telefax: (0124) 4265817 Head Office: H-65, Connaught Circus, New Delhi-110001 Tele: 011-43034400, Fax 011-43582879 E-mail: manojpahwa@anantrajlimited.com, Website: www.anantrajlimited.com

NOTICE OF THE 35" ANNUAL GENERAL MEETING. **E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

Notice is hereby given that the 35th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of

Anant Raj Limited will be held on Wednesday, December 30, 2020 at 10:30 A.M. at the Registered Office of the Company at Plot No. CP-1, Sector-8, IMT Manesar, Gurugram, Haryana -122051, to transact the items of ordinary and special businesses as set out in the The copy of Annual Report for the Financial Year 2019-20 containing Balance Sheet, Profi and Loss Account, Director's Report, Auditor's Report and a copy of notice of 35th AGM which

interalia contains the process and manner of e-voting, Proxy form and Attendance Slip etc. along

Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that

the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed during

with User Id and Password have been e-mailed to all the shareholders whose e-mail Id are available, physical copies of the same have been dispatched to them at their registered address by post. The Notice of AGM and the Annual Report has been transmitted/dispatched by Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies Management and Administration) Rules 2014 and other applicable provisions, if any and

the book closure period i.e. from Thursday, December 24, 2020 to Wednesday, December 30 2020 (both days inclusive) for ascertaining the name of members entitled to the payment of dividend for the financial year 2019-20, if declared at the forthcoming AGM. The final dividend on equity shares, as recommended by the Board of Directors, subject to the provisions of Section 126 of the Companies Act, 2013, if declared by the Members at the 35th AGM, will be paid/dispatched within 30 days from the date of 35th AGM to eligible Members. Pursuant to the provisions of Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and Section 108 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules made there under as amended, the Company is pleased to provide its members the facility to exercise their right to vote by electronic means to be called as remote e-voting. The

Company has entered into an arrangement with National Securities Depository Limited (NSDL) for facilitating remote e-voting. The remote e-voting on the resolutions to be passed at the said AGM of the Company shall commence at 9:00 a.m. (IST) on Sunday, December 27, 2020 and wil end at 5:00 p. m. (IST) on Tuesday, December 29, 2020. The e-voting shall not be permitted beyond 05:00 P.M (IST) on Tuesday, December 29, 2020. During this period members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the Cut off date of December 23, 2020, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled for voting after 5:00 p.m. (IST) on Tuesday, December 29, 2020. At the end of the Remote e voting period, the facility shall forthwith be blocked. Once the vote on a resolution is cast by the share holder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently. The instructions for

remote e-voting are given in the aforesaid Notice of 35th AGM Any person who acquire shares of the company and becomes member of the Compan after dispatch of the 35th AGM Notice and holding shares as on the cut-off date i.e December 23, 2020 (closing hours) may obtain the Login Id and password by following the procedure as mentioned in the aforesaid notice or by sending a request to

The copy of Notice of 35th AGM, Annual Report etc. is also available and can be downloaded from the Company's website www.anantrajlimited.com and on the website

of NSDL i.e. Https://www.evoting.nsdl.com. Members who do not receive the Notice and Annual Report may download the same as above or may request for the copy of the same In case of any queries/grievances regarding e-voting, members may refer to 'Frequently Asked Questions' (FAQs) for shareholders and 'e-voting manual' for shareholders

available in the help section of NSDL's e-voting website www.evoting.nsdl.com or write an e-mail to evoting@nsdl.co.in or call on Toll Free no. 1800222990 and NSDL's Phone Nos.:- +912224994600/24994738. Members may also write to Mr. Manoj Pahwa, Company Secretary and Mr. A.K Prashar, Senior Manager Secretarial a manojpahwa@anantrajlimited.com / ak.prashar@anantrajlimited.com or at Head office of

The facility for voting through ballot paper shall be made available at the venue o 35th AGM and the members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through ballot paper. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. 10. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of

beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled

to avail the facility of remote e-voting or voting at 35th AGM through ballot paper. A person who is not a member as on cut-off date should treat this notice for information purpose only. Ms. Priya Jindal (Membership No ACS 52116), the Practicing Company Secretary has been appointed as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and 12. Pursuant to Finance Act, 2020, Dividend income will be taxable in the hands of members w.e.f. April 01, 2020 and the Company is required to deduct tax at source (TDS) from dividend paid to members at the prescribed rates. For the prescribed rates for various

dematerialization mode or with Company at manojpahwa@anantrajlimited.com/ ak.prashar@anantrajlimited.com or Company's RTA at rta@alankit.com, if you hold shares in physical form.

categories, the members are requested to refer to the Finance Act 2020, and amendments

there of. The Members are requested to update their Residential status, PAN, Category as

per Income Tax Act with your Depository Participants (DP's), if you hold shares in

The resolutions, if passed by requisite majority shall be deemed to have been passed on the date of 35th AGM i.e. December 30, 2020. For **Anant Raj Limited**

Manoj Pahwa Company Secretary and Compliance Officer Place: New Delhi Date: 07-12-2020 Membership No. A7812

बैंक ऑफ़ बड़ीदा

Bank of Baroda

Directors of the Company and the Statutory For MFK MUTUAL BENEFITS NIDHILTD.

ZOSARB, LUCKNOW 1st Floor, V-23 Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010. Ph. 0522-6677739/634/638, Mob. No. 8090002389

Email: armluc@bankofbaroda.co.in

Last Date of EMD/Document is 29.12.2020 upto 4:00 P.M.

Date &

Time of

E-Auction

perties "APPENDIX-IV-A [See proviso to Rule 6(2) & 8(6)] der the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement (2) & Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. lar to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property hich has been taken by the Authorised Officer of Bank of Baroda, Secured Creditor, will

be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" basis for recovery of below mentioned account/s, The details of

Borrower/s/Guarantor/s/Secured Asset/s/Dues/Reserve Price/E-Auction date & time, EMD and Bid increase Amount are mentioned below:

	VERTILE DALVIE		DENN DAIL
Sale Notice	for sale of i	immov	able prop
E-Auction Sate N of Security Intere			
Notice is hereby g mortgaged/charge			

E-Auction Date: 30.12.2020 Description of the Name & Address of the Borrower/s Guarantor/s & Date of Demand & Possession / Amount of Debt BORROWER: M/s Ratnagarbha (1) Land & Building situated at Agro Pvt. Ltd., Registered Village-Behloli (1/2 part of Khasra

Jankipuram, Lucknow-226021 0.653H, Full part of Khasra 477 Factory: Nanak Ganj Jhala, St. Kha, measuring 0.041H, 1/2 Part James School Road, Lucknow of Khasra 475 (Min) measuring Road, Hardoi Directors: 1. Mr. Ram Kishan Khasra 477 ka measuring 0.082H Agarwal, R/o-H.No. MLIG 4/9, = 0.041H), Pargana-Bangar, Sector-H, Jankipuram, Lucknow- Tehsil & District-Hardoi, Total

2. Mr. Shri Kishan Agarwal C/o Ratnagarbha Agro (P) Ltd. M/s Savaria Roller Flour Mills Boundaries : East: Nala, West: Pvt. Ltd., Add: H-55, 56, 57, 58, School Raja Todermal, North: UPSIDC, Industrial Area Dammer Road, South: Property

Agropark-2, Kursi Road, Near of Pramod Kumar Jindal Asia School of Management, (2) Plant & Machinery Lucknow, U.P., R/o-C-1/151, Sector-G, Jankipuram, Lucknow. Demand Notice: 02.11.2015

Possession Notice: 10.02.2016

Amount of Debt: Rs. 13,09,46,228/-

+ Interest w.e.f. 01.11.2015 &

other charges

Mob. No. 8090002389

Immovable Property with known encumbrances. if any office: H.No. MLIG 4/9, Sector-H, 475 (Min), Measuring 1.306H = 0.164H = 0.082H & 1/2 Part of

Area: 8170 sq.mt., Owner: M/s

7 13,09,46,228/-+ Intt. w.e.f. 01.11.2015 & other charges (minus amount if any paid after the demand notice or possession notice)

Total Dues

30.12.2020 01:00 PM to 03:00

+ (RP) ₹ 22,75,000/-+ (EMD) ₹ 10,000/- (Bid Increase Amount)

₹ 1,15,86,000/

₹ 11.58,600/-

+ (EMD)

₹ 10,000/-

Amount)

Reserve

Price/EMD/

Bid Increase

Amount

2,27,50,000/

Property

Inspection

Date &

Time

28.12.2020

between

01:00 PM

to

4:00 PM

 (Bid Increase For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in Bank of Baroda secured i.e. https://www.bankofbaroda.in/ e-auction.htm & https://ibapi.in. Also, prospective bidders may contact the authorised officer on Ph. No. 0522-6677739/634/638, Authorized Officer, Bank of Baroda

Place: Udaipur

Date: 05" September 2020

Chairman & Managing Director

New Delhi

transactions with companies. associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements

In the matter of the Companies Act, 2013, Section 13(4) of Companies Act, 2013 and Rule 30(5) (a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

FORM NO. INC-26

the matter of OASIS COMMERCIAL PRIVATE

the company proposes to make application to the Regional Director, Northern Region, New Delhi (Central Government) under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandui of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the 14th Annual General Meeting held on Monday, November 23, 2020 to enable the company to change its Registered office from 'the National Capital Territory of Delhi to the State of Haryana'. Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi - 110003, India, within

Gautam Malhotra Place: New Delhi (Director)

DIN: 00203482

and Transferee Company PUBLIC NOTICE

Scheme of Amalgamation ("Scheme") between Bharat Starch Products Private Limited ("BSP" or "Transferor Company 1"), DBH Investments Private Limited ("DBHIN" or "Transferor Company 2"), D B H International Private Limited ("DBHI" or "Transferor Company 3") (collectively referred to as "Transferor Companies") into Karun Carpets Private Limited ("KCP" or "Transferee Company") was presented by the Applicant companies jointly ("Transferor Companies and Transferee Company") on November 13, 2019 and the said petition has been allowed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Chandigarh Bench vide Order dated 04th December, 2020.

DBHI into KCP and consequent dissolution of BSP, DBHIN and DBHI without winding up and issuance of new Equity shares by KCP to the shareholders of Transferor companies as consideration for the amalgamation. The Transferee company is a Private Limited Company (CIN.: U65100PB1985PTC049210) incorporated on December 05, 1985 under the provisions of the Companies Act, 1956 and its registered office is situated at Flat No. J-3/602, The Views, Mohali Hills, Sector-105, SAS Nagar, Mohali, Punjab –140 306. The Transferee Company is registered with the Reserve Bank of India as a non-deposit taking Non-Banking Financial Company vide certificate dated December 2, 2016.

For Bharat For DBH For D B H For Karun

Registered Office: Hapur Road, Modinagar, Ghaziabad-201204 (U.P.) Tel: 01232-243471, +91-9582388706 E-mail: modipon@modimangal.in, vkthareja@modimangal.in, Website: www.modipon.net Notice of 53[™] Annual General Meeting, Book Closure and Remote E-Voting information NOTICE is hereby given that the 53rd Annual General Meeting ('AGM') of the members of Modipon Limited will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual means

info@masserv.com providing Folio number, Name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and Back), PAN(Self attested scanned copy of PAN Card), AADHAR (Self

In case shares are held in Demat mode, members are requested to contact their Depository

Scrutinizer for the e-voting process. The detailed procedure for remote e-voting is contained in the letter sent with the Notice of the AGM. Any query/grievance relating to e-voting may be addressed to Mr. Vineet Kumar Thareja, Company Secretary & Compliance Officer, Modipon

2020 to Monday, the December 28, 2020 (both days inclusive) for the purpose of taking record of the shareholders at the Annual General Meeting. The voting results of the AGM along with the Scrutiniser's Report will be declared as per the statutory timelines and will also be posted on the Company's website www.modipon.net, the website of CDSL https://www.evotingindia.com/ and on the website of BSE Limited

Place: New Delhi Date: 08 December, 2020 Company Secretary & Compliance Officer



अधिकतम-24.0 डि.से.

न्यूनतम- 13.7 डि.से.

सूर्यास्त- 17:25

सूर्योदय- 7:02

दक्षिणी दिल्ली में संपत्ति कर बढ़ाने की तैयारी

राजधानी

नई दिल्ली

छूट हो सकती है खत्म, निगम आयुक्त ने कई प्रस्ताव रखे

जनसत्ता सवाददाता नई दिल्ली, 7 दिसंबर।

दक्षिणी नगर निगम की आर्थिक स्थिति सधारने के नाम पर दिल्लीवासियों पर बोझ डालने की तैयारी है। सोमवार को निगम आयुक्त ने कई प्रकार के प्रस्ताव रखे। आयुक्त ने अपने बजट प्रस्ताव में कुछ श्रेणियों के आवासीय सम्पत्तियों पर कर 12 और 14 फीसद के बढ़ोतरी का प्रस्ताव तो रखा ही साथ ही को–आपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटी (सीजीएचएस) में सम्पत्तियों के मामले में एकमुश्त भुगतान पर देय कर पर 20 फीसद की अतिरिक्त छूट को समाप्त करना भी प्रस्तावित

की जिम्मेदारी सोसायटी को ही देने का प्रावधान रखा गया था लेकिन यह प्रावधान आज तक लागू नहीं हो सका है। इसके साथ ही निगम की आमदनी बढाने के लिए डीडीए-सीजीएचएस फ्लैटस को 100 वर्गमीटर तक (यथा-अनुपात आधार पर) दी जाने वाली 10 फीसद अतिरिक्त छट को समाप्त करना भी प्रस्तावित है। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य का एक फीसद शिक्षा सैस का प्रस्ताव में शामिल है। निगम के आयक्त ने आवासीय सम्पतियों और वाणिज्यिक, गैर-आवासीय सम्पत्तियों (150 वर्गमीटर से कम) को तीन श्रेणियों से घटा कर दो श्रेणियों का प्रस्ताव रखा है। ए, बी, सी, डी, ई में कर की एक समान दर व एफ जी, एच में सम्पत्ति-कर की एक राशि पर ब्याज दर बहुत अधिक थी।

दिल्ली में कोरोना के 1624 नए मरीज मिले

वैक ऑफ इंडिया

Bank of India

गुणों के जांच की तारीख

दिनाकः 19.10.2020

प्रातः 11.00 बजे से 4.00 बजे तक

संबंधित शाखा से सम्पर्क करें

एनपीए खाते का

नाम एवं शाखा

1. न्य लक्ष्य इंटरप्राइजेज,

पार्वती पांडे पत्नी

श्रीमती नवनीता

शाखाः हल्द्वानी

कमारी ऋणी:-

4. श्री मंजीत सिंह

शाखाः हल्द्वानी

सच्टि प्रिंटिंग प्रेस

प्रोपराइटर श्रीमती

सुष्टि पत्नी भानप्रताप

शाखाः ज्वालापुर

दीपक शर्मा एवं

शाखाः सराय

विनीता शर्मा

ऋणी:-

खीमानंद पांडे

3.68 फीसद दर्ज की गई थी। यह

सोमवार को गिरकर 3.15 तक आ

गई है। 24 घंटे में कोराना संक्रमण

की 53207 जांच की गई है और

इस दौरान 3818 मरीज ठीक होकर

अपने घरों को लौटे हैं। इस समय

दिल्ली में सिक्रय मरीजों का

आंकडा 22486 है और 14279

मरीजों का अभी एकांतवास में

इलाज किया जा रहा है। बीते 24

घंटों में मृत्युदर 2.14 फीसद दर्ज

की गई है। सरकारी एजंसियां इस

दर में गिरावट आने का ही इंतजार

चल/अचल सम्पत्ति/यों का

सम्पत्ति नं0 1. वंधक प्लांट एवं मशीनरी के

सभी भाग व खंड स्थित खेत नं0 11 मि एवं

43 मि, खाता नं0 00003 (1421-1426),

ग्राम- हिम्पतपुर, नकयल, तहसील- हल्द्वानी,

सम्पत्ति माप 560 वर्ग मीटर, खाता नं0

00422, खसरा नं. 797 Min, ग्राम बाडा

परगना, रूद्रपुर तहसील किच्छा, जिला उधम

सिंह नगर, में स्थित, **सम्पत्ति स्वामिनी श्रीमती**

माप 33463.60 वर्गफीट स्थित खाता नं0

00163. खसरा नं0 428/1, ग्राम- चुकती,

परगना रूद्रपुर, तहसील- कीचा, उधम सिंह

बंधक सम्पत्ति के सभी भाग व भुखंड आवासीय

संपत्ति माप 167.28 वर्ग मीटर स्थित खाता

नं0 89, खसरा नं0 24/3/1 मिन, प्राइवेट

प्लॉट नं0 ए-2, ग्राम- रामेश्वरपुर, तहसील-

खसरा नं0 276, रामा विहार, ग्राम- दिनारपुर

सिंगल कलर ओफ्सेट प्रिंटिंग प्रेस मशीन स्थित

प्राम- खेल्दी, बहादत्तराबाद, हरिद्वार, **सम्पत्ति**

बंधक आवासीय प्लॉट नं0 6 बी एवं 7 वे

सभी भाग व खंड, खसरा नं0 276, रमा

विहार, स्थित ग्राम- दिनपुर, परगना, ज्वालापुर

तहसील एवं जिला- हरिद्वार। सम्पत्ति स्वामीः

विनीता शर्मा एवं श्रीमती ज्योति शर्मा।

खामीः श्रीमती सुष्टि पत्नी भानुप्रताप।

स्द्रपुर, जिला- उथम सिंह नगर। **सम्पत्ति**

नवनीता कुमारी पत्नी श्री सुरेन्द्र पाल

नगर। स्वामी: मोहम्मद हक अली

नैनीताल, सम्पत्ति स्वामीः खीमानंद पांडे।

· श्री सुरेन्द्र पाल एवं बंधक आवासीय सम्पत्ति के सभी भाग व खंड

3. मीहम्मद हक अली बंधक खाली भूमि के सभी भाग व भूखंड

स्वामीः श्री मंजीत सिंह।

एवं श्रीमती मोनिका माप 809.02 वर्ग फीट, प्लॉट नं0 10,

ज्वालापुर शाखा परगना ज्वालापुर, हरिद्वार में स्थित, सम्पत्ति

स्वामिनीः श्रीमती मोनिका शर्मा

5. श्री जितेन्द्र जी शर्मा बंधक आवासीय सम्पत्ति के सभी भाग व खंड

समान दर प्रस्तावित किया है। ए, बी, सी, डी और ई श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली आवासीय सम्पत्तियों पर सम्पत्ति-कर की दरों में विगत दस वर्षों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है इसलिए ए से बी श्रेणी के अंतर्गत आने वाली आवासीय सम्पत्तियों पर सम्पत्ति-कर 14 फीसद और सी से एच श्रेणी के समक्ष सम्पत्ति के वार्षिक मुल्य का 12 फीसद बढोतरी प्रस्तावित किया है।

दक्षिणी निगम के आयुक्त की गैरमौजुदगी में अतिरिक्त 20 फीसद का कर प्रस्तावित है।

आंचलिक कार्यालय, देहरादून: महावीर टॉवर, सेंट जूड्स, क्रोसिंग,

शिमला बायपास रोड, सेवला कलां, जिला देहरादून-248171

फोन नं0: 0135—2640046, 2641002, Email: Dehradun.ARD@bankofindia.co.in

वर्णित परिशिष्ट-IV क [नियम 8(6) परन्तुक देखें] अचल संपत्तियों के विक्रय हेत् विक्रय नोटिस

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(६) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित का

प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेत् ई-नीलामी विक्रय नोटिस।

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभृति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल / अचल संपत्ति जो प्रतिभृति लेनदार के पास

दुष्टिबंधक / प्रभारित है, का प्रलक्षित / वास्तविक कब्जा (इनमें से जो भी लागू होता है) प्रतिभृति लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लिया गया है,

(a) https://www.bankofindia.co.in /(b) https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp /(c) https://www.eprocure.gov.in._देखें

को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीलाम किया जायेगा। *नीलामी के नियम व शतों की विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया दी गई वेबसाइट

ईएमडी और दस्तावेजों को जमा

करने की अंतिम तिथि और समय

दिनाकः 23.12.2020

सायं 05.00 बजे तक ऑनलाइन /

ऑफलाइन से

मांग नोटिस तिथि

बकाया राशि

कब्जा सूचना

10.06.2019

₹0 77,49,987

+ ब्याज व अन्य

खर्चे दिनांक

31.05.2019 से

20.01.2018

₹50

15,10,326.96

+ ब्याज व अन्य

खर्चे दिनांक

01.01.2018 甘

04.05.2019

₹0 60,75,926.30

+ ब्याज व अन्य

खर्च दिनांक

30.04.2019 柱

07.10.2017

₹0 15,48,530.40

+ ब्याज व अन्य

खर्चे दिनांक

01.10.2017 से

28.04.2017

+ ब्याज व अन्य

01.04.2017 से

21.01.2019

₹0 9,26,918.87

+ ब्याज व अन्य

खर्चे दिनांक

31.12.2018 से

05.06.2018

₹0 18,55,153

+ ब्याज व अन्य

खर्चे दिनांक

31.05.2018 से

नियम व शर्तै:-- (1) सम्पत्तियों की ई-नीलामी ऑनलाइन वेबसाइट https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp के माध्यम की जायेगी। पांच

मिनट के विस्तार के साथ निर्दिष्ट समय सारिणी के अनुसार होगी, **टॉल फ्री नं0 18001025026,** संपर्क व्यक्ति ऋतेश नाथ मो0 नं0: 09668551395, ई-मेल

rnath@msctindia.co.in एवं राकेश रंजन, मो0 नं0 09911700233, ई-मेल आइडी: rranjan@mstcindia.co.in से प्राप्त किया जा सकता है। (2) उधारकर्त्ता(ओं) का ध्यान

प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के उपबंधों की और आकृष्ट किया जाता है। (3) बोलीदाताओं को एमएसटीसी के

नियमों के अनुसार केवाईसी दस्तावेज व पंजीकरण शुल्क https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp पर निलामी की तिथि से

पहले जमा कराना होगा पंजीकरण प्रक्रिया में न्युनतम दो कार्यदिवस लगते हैं। (पंजीकरण प्रक्रिया उपरोक्त वेबसाइट पर विस्तृत है) (4) इच्छक बोलीदाता ईएमडी

राशि आरटीजीएस / एनईएफटी के द्वारा जारी किये गये अपने बोली खाते में जमा कराकर https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp.

पर चालान जारी करवा ले (5) इच्छुक बोलीदाता को यह ध्यान रखना चाहिए कि नीलामी की तारीख से कम से कम एक दिन पहले ईएमडी को स्थानांतरित कर दिया

जाए एवं पुष्टि करें कि M/s. MSTC Ltd के साथ रखा गया उसका वॉलेट ईएमडी राशि को दर्शाता है जिसके बिना सिस्टम बोलीदाता को ई-नीलामी में भाग लेने की

अनुमति नहीं देगा। (6) असफल बोलीदाता की ईएमडी को M/s MSTC Ltd. के साथ बनाए गए अपने संबंधित वॉलेट में वापस कर दिया जाएगा। असफल बोलीदाता

को M/s MSTC Ltd से ईएमडी राशि को अपने बैंक खाते में वापस करने के लिए अनुरोध करना होगा। (7) सफल बोलीकर्ता की EMD राशि बैंक के पास ही रहेगी। (8) EMD

राशि पर बैंक द्वारा कोई भी ब्याज देव नहीं होगा। (9) सफल बोलीकर्ता को विक्रय मूल्य यानि अधिकतम बोली राशि का ईएमडी राशि के अतिरिक्त 25% प्राधिकृत अधिकारी द्वारा

बोली स्वीकार किये जाने के तुरन्त पश्चात जमा कराना होगा। शेष बकाया राशि उसे 15 दिन या उसके अन्दर जमा कराना होगा। सफल बोलीकर्ता द्वारा भूगतान के असफल

रहने की स्थित में उसके द्वारा जमा राशि जब्त कर ली जायेगी। (10) इच्छक व वैध निविदाकर्ता को सभी खर्चे जैसे स्टाम्प इयुटी/अतिरिक्त स्टाम्प इयुटी/ट्रांसफर चार्जेज

सरफेसी एक्ट 2002 नियम 8(5) एवं नये प्रावधान उप 1 से नियम 6 प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) के अन्तर्गत 15 दिन का वैधानिक बिक्री सूचना अनुवर्ती बिक्री हेतु

उपर्युक्त उधारकर्ता / गारंटीकर्ता / बंधककर्ता को नोटिस दी जाती है कि वे ई-नीलामी की तिथि से पूर्व अपना कुल बकाया ब्याज व अन्य खर्चे सहित जमा

फीस आदि व अन्य सभी सांविधिक ⁄गैर सांविधिक देय राशि, कर दरें, मूल्यांकन खर्च फीस आदि जो किसी भी व्यक्ति विशेष की हो स्वयं वहन करना होगा

रू० 12,57,641.58 खाता संख्याः

सम्पत्ति नं0 2. वंधक व्यवासायिक सम्पत्ति के सभी भाग व खंड माप क्षेत्रफल 1194.23 वर्ग मीटर, स्थित खेत नं0 11 मि एवं 43 मि, खाता नं0:

00003 (1421-1426), ग्राम- हिम्मतपुर, नकयल, तहसील- हल्द्वानी, नैनीताल, **सम्पत्ति स्वामी**: खीमानंद पांडे पुत्र श्री गोकुलानंद

खाते का नाम/

आरटीजीएस / एनईएफटी

द्वारा ईएमडी जमा

705190200000033

705190200000033

705190200000033

IFSC: BKID0007051

खाताः मध्यस्य इनवर्ड आउटवर्ड

705190200000033

765490200000033

765490200000033

765490200000033

IFSC: BKID0007654

IFSC: BKID0007654

खाता सख्याः

खाता सख्याः

IFSC: BKID0007654

IFSC: BKID0007051

खाता सख्याः

खाता सख्याः

IFSC: BKID0007051

IFSC: BKID0007051

खाता सख्याः

खाताः मध्यस्य इनवर्ड आउटवर्ड श्री मनीष उपाध्याय

खाताः मध्यस्य इनवर्ड आउटवर्ड श्री मनीष उपाध्याय

खाताः मध्यस्य इनवर्ड आउटवर्ड श्री मनीष उपाध्याय

खाताः मध्यस्थ इनवर्ड आउटवर्ड श्री तरला के. बाखरू

खाताः मध्यस्य इनवर्ड आउटवर्ड श्री तरला के. बाखरू

खाताः मध्यस्य इनवर्ढ आउटवर्ढ श्री तरला के, बाखरू

फोन नं:

फोन नं:

फोन नं:

फोन नं:

फोन नः

फोन नं:

फोन नं:

9910901125

9910901125

9910901125

8650568665

8650568665

8650568665

हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड CIN: U70101DL2005GOI132162

पंजी. कार्यालय का पताः कमरा सं. 144, सी-विंग, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110001 Tel: 011-23061325 Website: www.hpil.co.in, E-mail info@hpil.co.in

16वीं वार्षिक साधारण सभा तथा ई-वोटिंग की सूचना एतदृद्वारा सुचित किया जाता है कि हेमिरफेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड (''कम्पनी/एचपीआईएल'') के सदस्यों की 16वीं वार्षिक साधारण सभा मंगलवार 29 दिसम्बर, 2020 को 1.15 बजे पूर्वा (आईएसटी) में विडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा आयोजित की जायेगी

कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू होने वाले प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उदघाटन अपेक्षा) (एलओडीआर) विनियमनों, 2015 के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) तथा सेबी द्वारा जारी लागु होने वाले सर्क्युलर्स (यहां के बाद सामृहिक रूप से ''सक्युलर्स' वर्णित) के प्रावधानों के अनुपालन में सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा।

का वार्षिक रिपोर्ट भेजी है जिनके ईमेल आईडी 1 दिसम्बर, 2020 की कट-ऑफ तिथि को डिपाजिटरीज के पास पंजीकत हैं।

लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाईट पर भी उपलब्ध है।

. सदस्यों को सुचित किया जाता है कि :

i रिमोट ई-वोटिंग अवधि 26 दिसम्बर, 2020 (9.00 बजे पूर्वा. आईएसटी) में शुरू होगी तथा 28 दिसम्बर, 2020 (5.00 बजे अप. (आईएसटी)

ii इस अवधि के दौरान 22 दिसम्बर, 2020 अर्थात कट-ऑफ तिथि को भौतिक या डिमैटेरियलाइज्ड पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्य इलेक्ट्रानिक रूप से मतदान कर सकते हैं।

पर एवं/ अथवा आरटीए को csg-unit@tsrdarashaw.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन, यदि सदस्य ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल में पहले से ही पंजीकृत हैं तो मतदान करने के लिए अपने वर्तमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। $\mathrm{i}\mathrm{v}$ उसके बाद मतदान के लिए सीडीएसएल द्वारा ई–वोटिंग पद्धति निष्क्रिय कर दी जाएगी।

🗸 जिन सदस्यों ने सभा की तिथि से पूर्व अपना मतदान कर दिये हों, वे सभा स्थल पर मतदान के लिए अधिकृत नहीं होंगे। सदस्यगण ध्यान रखें किः क) वीसी/ओएवीएम सुविधा द्वारा एजीएम में उपस्थित ऐसे सदस्यों जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान नहीं किये हों तथा अन्यथा ऐसा करने

सदस्यों से आग्रह है कि एजीएम सूचना में वर्णित रिमोट ई-वोटिंग के निर्देशों को देखें। एजीएम में उपस्थित होने तथा ई-वोटिंग से संबंधित किसी प्रश्नों/ समस्याओं के लिए आप सहायता खंड के अंतर्गत https://www.evotingindia.com पर उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQ's तथा ई-वोटिंग मैन्युअल देखें अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल करें अथवा श्री नितिन कुण्डेर (022-23058738) या श्री मेहबूब लखानी (022-23058543) या श्री राकेश डाल्वी (022-23058542) से सम्पर्क करें। किसी अन्य पूछताछ/समस्या के लिए सदस्य श्री कैलाश मदान/ श्री मुकेश कुमार (011-42425004), मै. टीएसआर दाराशॉ कन्सल्टैन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड, आरटीए या कम्पनी से सम्पर्क करें या cseunit@tsrdarashaw.com पर ईमेल करें।

. सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 के अनुसार क्योंकि एजीएम वीसी के द्वारा आयोजित की जा रही है,सेबी (एलओडीआर) की अपेक्षाओं का पालन किया गया है।

केनरा बैंक (ई-सिंडिकेट बैंक)

सदस्यों से आग्रह है कि वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में शामिल होने तथा ई-वोटिंग द्वारा मतदान की प्रक्रिया के लिए एजीएम की सूचना में दिये गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ लें।

हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड के लिए

कम्पनी सचिव

अधिकरण के आदेश से, रजिस्ट्रार, के लिये

वैंक ऑफ़ बड़ीटा

Bank of Baroda

TO

Sakshi & Associates, Chartered Accountants (Firm Registration No. 017918N), having egistered office at B-105, Preet Vihar, Delhi-110092 is hereby appointed as Auditors of the Company to hold office from the conclusion of this Annual General Meeting (AGM) till the conclusion of the AGM of the Company to be held in the year 2025 at such remuneration as may

of the Company and the Statutory Auditors." By order of the Board For M.F. MUTUAL BENEFITS NIDHILTD.

be mutually agreed between the Board of Directors

MOHAMMAD KHALID (Managing Director)

DIN No. 08570524

Meat Masjid, Ghaziabad-245101 Place: Hapur, Date: 7" December, 2020

ऋण वसुली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 के सेक्शन 19 के सब—सेक्शन (4) सपठित उप नियम (2ए) के नियम 5 समय-समय पर संशोधित ऋण वसूली ट्रिब्यूनल (प्रोसीजर) नियम 1993 के अधीन उपस्थित होने

ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वितीय तल, पारस टॉवर, माजरा सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड–248171

पंजाब नैशनल बैंक बनाम मैसर्स एवरग्रीन इंटरप्राइजेज एवं अन्य

3. अनुभव कुमार पुत्र पुरषोत्तम कुमार, निवासी: विवेक विहार, आवास विकास, ज्वालापुर

जहाँ कि उपरोक्त वर्णित आवेदक बैंक ने आपके विरुद्ध रू. 74,51,247.01 /- की वसूली हेतु ओ०ए० सं० 434/2019 संस्थित किया है, जिसमें कि माननीय न्यायाधिकरण ने ऋण वेंसूली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के सम्मन / नोटिस

यह कि, माननीय ट्रिब्यूनल इस बात से सन्तुष्ट है कि सामान्य तरीकें से मांग नोटिस जारी किया जाना संभव नहीं है, इसलिए इस प्रकाशन के जरिये दी जा रही सूचना के द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि आप दि० 14.01.2021 को अथवा इससे पूर्व आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिकत एजेण्ट या लीगल प्रैक्टिशनर के माध्यम से माननीय ट्रिब्यूनल में उपस्थित हों । इसके अलावा, आपको यह दिखाने की आवश्यकता है

सुचित हों कि निर्धारित दिवस एवं समय पर ट्रिब्युनल में आपकी उपस्थिति की चुक की

नोट:- वी०सी० के माध्यम से सुनवाई की अगली तारीख पर व्यक्ति या कानूनी प्रतिनिधि

ट्रिब्युनल के आदेशानुसार

आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 28.12.2020 (23:59 बजे) है.

महाप्रबंधक - मानव संसाधन प्रबंधन है

स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड CIN: L74899DL1987PLC027057

8/28, डब्ल्यूईए अब्दुल अजीज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 E-Mail Id: stancap.delhi@gmail.com, Ph. No.: 011-28759592

• कम्पनी की 33वीं वार्षिक साधारण सभा बुधवार, 30.12.2020 को 9.30 बजे पूर्वा. में बीजी-223, संजय गांधी ट्रान्सपोर्ट नगर, जी.टी. करनाल रोड, दिल्ली-110042 में सभा की सूचना तिथि 7.12.2020 में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पादित करने के लिये आयोजित होगी।

 वर्ष 2019-20 के वार्षिक रिपोर्ट के साथ सचना इलेक्ट्रानिक पद्धित से केवल उन सदस्यों को भेजी जायेगी जिनके ईमेल पते 7.12.2020 को कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास दर्ज हैं।

वार्षिक साधारण सभा की सूचना सीडीएसएल की वेबसाईट www.evotingindia.com की वेबसाईट पर देखी/डाउनलोड की जा सकती है। उसकी भौतिक प्रति निरीक्षण के लिये कार्यालय अवधि के दौरान कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध होगी।

विनियमन, 2015 ("सूचीयन विनियमन") के विनियमन 42 के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें 24.12.2020 से 30.12.2020 (दोनों दिवस सिहत) तक उक्त वार्षिक साधारण सभा के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

नियमावली, 2015 द्वारा यथा संशोधित तथा सुचीयन विनियमन के विनियमन 44 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुपालन में यह कम्पनी वार्षिक साधारण सभा में निष्पादित होने वाले व्यवसायों के लिये अपने सदस्यों को सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा ई-वोटिंग की सुविधा सहर्ष प्रदान कर रही है।

ई-वोटिंग सुविधा 27.12.2020, 09.00 बजे पूर्वा. से 29.12.2020, 5.00 बजे अप.तक उपलब्ध होगी जिसके बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी।

इलेक्ट्रानिक माध्यमों अथवा एजीएम में मतदान करने के लिये सदस्यों की पात्रता सुनिश्चित करने के लिये कट-ऑफ तिथि 25.12.2020 है।

कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट-ऑफ तिथि को शेयर धारित करते हैं, वे helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं लेकिन, यदि रिमोट ई-वोटिंग के लिये आप पहले से हीं सीडीएसएल में पंजीकृत हैं तो अपना मतदान करने के लिये आप अपने वर्तमान यजर आईडी तथा पास्वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।

पर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान नहीं किये हों. वे भी एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं. लेकिन एजीएम में फिर से मतदान के लिये अधिकृत नहीं होंगे।

www.evotingindia.com पर उपलब्ध सदस्यों के लिये Frequently Asked Questions (FAQ's) देखें या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल करें अथवा श्री राकेश डाल्वी, उप प्रबंधक, सीडीएसएल, ए-विंग, 25 वां तल, मैराथन फ्युचरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउण्डस, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल (ईस्ट), मम्बई-400013 से अथवा 1800-22-5533 पर अथवा कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के पते पर सम्पर्क करें।

स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के लिये

घनश्याम प्रसाद गुप्ता प्रबंध निदेशक



दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

जनसत्ता, नई दिल्ली, 8 दिसंबर, 2020 3

20वीं मंजिल, डॉ. एस. पी. एम. सिविक सेंटर, नई दिल्ली – 110002

ई-निविदा सूचना एसडीएमसी 1 जनवरी, 2021 से आरंभ दो (2) वर्षों की आरंभिक अवधि के लिए **एसडीएमसी के**

अधिकार क्षेत्र में मोबाइल सहायकों के माध्यम से करदाताओं के दरवाजे पर ऑनलाइन संपत्ति कर का रिटर्न दाखिल और ऑनलाइन संपत्ति कर संग्रह करने के लिए दो बोली प्रणाली में खुली निविदा माध्यम से एजेंसी नियुक्त करने के उददेश्य से ई-निविदा संख्या ए एवं सी / एसडीएमसी / आरएफक्यू / 20-21 / 01 के जरिये योग्य निविदाकर्ताओं से निविदाएं आमंत्रित करता है। निविदाएं जमा करने की अंतिम तिथि 17 दिसंबर, 2020 दोपहर 3:00 बजे हैं।

आरएफपी दस्तावेज एमसीडी की वेबसाइट www.mcdonline.nic.in और www.tenderwizard.com/SouthDMC से डाउन लोड किया जा सकते हैं। उप ए एवं सी / मुख्यांलय

Ro No.54/DPI/S/2020-21

following business.

re-appointment.

ORDINARY BUSINESS: -

Notice for 1" Annual General Meeting

U.P on Thursday, the 31" December, 2020 at

11:00 A.M. to transact with or without

modifications, as may be permissible, the

. To receive, consider and adopt the Audited

Financial Statements of the Company for the period

ended 31st March, 2020 and the Reports of the

To appoint a Director in place of Mr. Saeed

Ahmad Director (DIN- 08570523), who retires

by rotation and being eligible, offers himself for

3. To appoint a Director in place of Mr. Mohammad

Saddam, Director (DIN-08570525), who retires by

rotation and being eligible, offers himself for re-

4. To consider and if thought fit, to pass with or

without modification(s), the following resolution

"RESOLVED THAT that pursuant to the

provisions of Section 139 and all other

applicable provisions, if any, of the Companies

Act, 2013 and the Rules framed thereunder, as

amended from time to time, the M/s Saurabh

as an Ordinary Resolution: -

Board of Directors and Auditors thereon.

M.F. MUTUAL BENEFITS NIDHI LIMITED

Regd. office: 908, Kila Kona, Kali Maszid, Hapur, Uttar Pradesh 245101, India Ph.:+91 9627314099, Email:m.f.mutualbenefitsnidhilimited@gmail.com TO MEMBERS

MOHAMMAD KHALID (Managing Director)

Notice is hereby given that the 1st Annual General Meeting of M. F. MUTUAL BENEFITS NIDHILTD. DIN No.08570524 Add: 1273 Bhanda Patti, Hapur, Uttar Pradesh, will be held at 908, Kila Kona, Kali Maszid, Hapur,

Meat Masjid, Ghaziabad-245101 Place: Hapur, Date: 7th December, 2020. AMember entitled to attend and Vote at the AGM

is entitled to appoint proxy to attend and vote,

instead of him/her and the proxy need not be a

ए एवं सी विभाग

member. The instrument of proxy, in order to be effective, must be duly filled, signed, stamped and should be submitted to the Registered Office of the Company, not later than 48 hours before the commencement of the meeting. 2. The Register of Members shall remain closed

from 21st December, 2020 to 30th December, 2020. (Both days inclusive) Audited Financial Statements along with Auditor's Report and Director's Report have also been affixed on NOTICE BOARD of the Company and attendance

slips and Proxy Forms are also available there. Due to COVID Pandemic, Local Administration has given permission to hold AGM with a maximum gathering of 50 participants only. Therefore, it is mandatory for members or proxy thereof who are interested to attend AGM to register their names with the in-charge Head Office of the Company at least 24 hours before meeting. Moreover, in pursuant to guidelines issued by Administration and Health Deptt. all participants are requested to strictly adhere the rules of Social Distancing and Mask since it is necessity as well as very important in the interest of all in prevailing circumstances.

Add: 1273 Bhanda Patti, Hapur, Uttar Pradesh,

दिनांकः 03.12.2020

हरिद्वार एवं रानीपुर मोर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

जारी किया था जो कि माननीय पीठासीन अधिकारी के समक्ष 02.12.2020 को सूचीबद्ध

कि ओ0ए0 में दी गई राहत की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए और सेट में एक पेपर बुक फॉर्म में अपने बचाव में और यदि कोई हो, तो सभी दस्तावेजों और शपथ पत्रों के तहत अपने बचाव में दायर करें। व्यक्तिगत रूप से या इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर, इस ट्रिब्यूनल में व्यक्तिगत रूप से या आपके विधिवत अधिकृत एजेंट या कानुनी व्यवसायी के माध्यम से सेट अप, काउंटर क्लेम के लिए आपका बचाव या दावा

दशा में इस प्रकरण पर सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपरिधति में किया जायेगा।

के माध्यम से, मोबाइल नं0 95600–72676 या डीआरटी आधिकारिक ई–मेल आईडी registrar-drtddn@gov.in पर ई—मेल के माध्यम से संपर्क करें। ई—मेल आईडी के विवरण के साथ—साथ व्हाट्सएप सक्षम मोबाइल नम्बर के साथ कम से कम तीन दिन पहले। ताकि वी0सी0 के माध्यम से सुनवाई में भाग लेने के अग्रिम में लिंक प्रदान किया जा सके।

रजिस्ट्रार (आई / सी),

ऋण वसूली ट्रिब्युनल, देहरादून, (मो): 9560072676, (ओ): 0135-2720854 MODIPON LIMITED

vkthareja@modimangal.in, Website: www.modipon.net

Notice of 53rd Annual General Meeting, Book Closure and Remote E-Voting information

NOTICE is hereby given that the 53rd Annual General Meeting ('AGM') of the members of

Modipon Limited will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual means "OAVM") on Monday, the 26th December, 2020 at 3.00 p.m to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of AGM. The Notice of the Meeting, Annual Report for the financial year ended March 31, 2020 and remote e-voting details have been sent in electronic mode to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company/RTA/Depository. The electronic dispatch of the Annual report & AGM Notice to the shareholders has been

a request to Registrar and Transfer Agents of the Company, MAS Services Limited at info@masserv.com providing Folio number, Name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and Back), PAN(Self attested scanned copy of PAN Card), AADHAR (Self attested scanned copy of Aadhar Card) in case of physical holding. Members are further requested to send their bank detail with original cancelled cheque to our

Members who have not registered their email ID with the Company/ Depository, may send written

RTA (i.e. MAS Services Limited, T-34 2" Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020) along with letter mentioning folio no. if not registered already.

In case shares are held in Demat mode, members are requested to contact their Depository ranicipant (DP) respectively The Annual report including the AGM notice is also available on Company's website www.modipon.net, the website of CDSL https://www.evotingindia.com/ and on the website of

BSE Limited www.bseindia.com. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act,

2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to provide the facility to members to exercise their vote on the resolution proposed to be passed at the AGM by electronic voting system. The remote e-voting period commences on Friday, December 25, 2020 (09:00 am) and ends on Sunday, December 27, 2020 (05:00 pm). No e-voting shall be allowed beyond the said date and time. During this period members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of December 21, 2020, may cast their vote by remote e-voting. Any person, who acquires shares and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cutoff date i.e. December 21, 2020, may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk@cdslindia.com or RTA, MAS Services Limited at info@masserv.com. However, if the members are already registered with CDSL for remote e-voting then they can use their existing user ID and password for casting their vote. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. The facility for voting through e-voting shall be made available at the AGM and the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. Mr. Ranjeet Kumar Verma, Practicing Company Secretary (Membership No. F6814 & CP No. 7463), Proprietor M/s. Ranjeet Verma & Associates, Company Secretaries, has been appointed as Scrutinizer for the e-voting process. The detailed procedure for remote e-voting is contained in the letter sent with the Notice of the AGM. Any query/grievance relating to e-voting may be addressed to Mr. Vineet Kumar Thareja, Company Secretary & Compliance Officer, Modipon Limited, Hapur Road, Modinagar-201204, U.P., Phone: 01232-243471, Email: vkthareja@modimangal.in and to Registrar & Share Transfer Agent of the Company at

NOTICE is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, Rule 10 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Register of the Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, the December 22, 2020 to Monday, the December 28, 2020 (both days inclusive) for the purpose of taking record of the shareholders at the Annual General Meeting

The voting results of the AGM along with the Scrutiniser's Report will be declared as per the statutory timelines and will also be posted on the Company's website www.modipon.net, the website of CDSL https://www.evotingindia.com/ and on the website of BSE Limited www.bseindia.com.

Vineet Kumar Thareja Date: 08 December, 2020 Company Secretary & Compliance Officer

बजट में धारा 123बी(3) के अंतर्गत छूट समय पर अर्थात 30 जून तक वित्तीय वर्ष का एकमुश्त सम्पत्ति-कर अदा करने पर मिलने वाली 15 फीसद की छूट को 10 फीसद करना प्रस्तावित है। क्योंकि 15 फीसद छट का प्रावधान उस वक्त रखा गया था जब बैंकों में जमा

सोमवार को स्थायी समिति की विशेष बैठक में

ऋण वसूली अधिकरण-I, दिल्ली 4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

तिथि: 7.12.2020

स्थानः नई दिल्ली

ई नीलामी की तारीख और समय

दिनाकः 29.12.2020

सुबह 10.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक

5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ

प्राधिकृत अधिकारी का

नाम / फोन नंबर /

E Mail I.D -Dehradur

ARD@bankofindia.co.in

E Mail I.D -Dehradun

ARD@bankofindia.co.in

E Mail I.D -Dehradun.

ARD@bankofindia.co.in

श्री मनीष उपाध्याय

केनरा बैंक (ई-सिंडिकेट बैंक) श्री इन्टरजीत अगेडा एवं अन्य 1. श्री इन्दरजीत अरोड़ा, पुत्र श्री जीतेन्दर अरोडा, निवासीः सी-3/18, भूतल, सेक्टर-15, दिल्ली-110089

2. श्री संजीव अरोडा, पत्र श्री जीतेन्दर अरोडा, निवासीः सी-3/18, भतल, सेक्टर-15, दिल्ली-110089 जैसा कि ऊपर नामित आवेदक ने रु. 14,40,231.17 (रुपए चौदह लाख चालीस हजार दो सौ इक्कतीस एवं पैसे सत्तरह मात्र) की वसूली के लिए आपके विरुद्ध एक मामला शुरू किया है, तथा जैसा कि इस अधिकरण की संतुष्टि के लिए यह साबित हो चुका है कि आपको सामान्य तरीके से सर्व करना संभव नहीं है। अतएव, विज्ञापन के माध्यम से इस सूचना के द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि 07.12.2020 को 10.30 पूर्वा. में विद्वान रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित हों। ध्यान रहे कि उपरोक्त तिथि को इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर मामले की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपरिथित में ही की जाएगी। (अधिक विवरणों के लिए डीआरटी की वेबसाईट www.etri-

bunal.gov.in देखें या फोन नं. 011-23748473 पर कॉल करें। वर्तमान में जारी महामारी की स्थिति के कारण सभी मामलों पर विचार विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जायेगी तथा इस उद्देश्य सेः i) सभी अधिवक्ता/वादीगण सिसको webexapplication/software डाउनलोड करें; ii) सुनवाई की अगली तिथि अर्थात् रजिस्ट्रार/रिकवरी अधिकारी-1/तथा रिकवरी अधिकारी-II द्वारा विचार की जाने वाली मामलों के लिए

मीटिंग आईडी तथा पास्वर्ड डीआरटी के आधिकारिक पोर्टल अर्थात् drt.gov.in पर सार्वजनिक सूचना शीर्ष के अंतर्गत आगामी तिथि से iii) किसी प्रकार की आकस्मिकताओं के लिये अधिवक्ता/वादीगण फोन नं. 011-23748473 पर संबंधित अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं। मेरे हाथ से तथा इस अधिकरण की मुहर लगाकर आज, 3 नवम्बर, 2020 को दी गई।

अधिकरण के आदेश से,

आरक्षित मूल्य

ईएमडी

बोली वृद्धि राशि

सम्पत्ति नं0 1

16.20 लाख

1.60 लाख

0.20 लाख

सम्पत्ति नं0 2

38.25 लाख

3.80 लाख

0.50 लाख

24.10 लाख

2.50 লাख

0.25 लाख

1.00 লাख

0.10 लाख

5.00 लाख

0.50 लाख

0.05 लाख

22.30 लाख

2.30 लाख

0.25 लाख

रजिस्ट्रार के लिए

ई–नीलामी सूचना

www.bankofbaroda.in

बैंक ऑफ़ बड़ौदा, भारत के अंतर्राष्ट्रीय बैंक को अपने **फिनटेक एवं नवीन पहल** विभाग के लिए अनुभवी प्रोफेशनल व्यक्तियों की आवश्यकता है चुनौतीपूर्ण करियर के लिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय बैंक से जुड़ें और इसकी विकास

मद सं.	पद	रिक्तियां
1.	बिजनेस एनालिस्ट	2
2.	इनोवेशन अधिकारी	2

योग्य होगी.

पात्रता मानदंड: इच्छक उम्मीदवार विस्तृत विवरण हेत् कृपया बैंक की वेबसाइट

पृष्ठ को देखें

स्थानः मुंबई

दिनांक: 08.12.2020

57.17 लाख 6.00 लाख 0.60 लाख 10.00 লাख 1.10 লাম্ভ 0.10 लाख 6.85 लाख

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि

• एजीएम में मत पत्र द्वारा मतदान की सविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जिन सदस्यों ने एजीएम से

कर दें इसमें असफल होने पर उक्त सम्पत्ति की नीलामी कर दी जायेगी। तथा बकाया राशि यदि कोई हो तो ब्याज व लागत सहित वसूल की जायेगी। दिनांकः 07.12.2020 स्थानः देहरादून प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया







आयुक्त का कहना था कि क्योंकि कर की देनदारी

आयुक्त रमेश वर्मा ने बजट पेश करते हुए विशेष वाणिज्यिक गैर-आवासीय सम्पत्तियों की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया है पर इसमें वाणिज्यिक, गैर-आवासीय सम्पत्तियां जैसे- गैस्ट हाउस, कंपनी गैस्ट हाउस, सराय, लॉज, पेइंग गैस्ट हाउस और बिना बार के रेस्तरां आदि इसमें जोड़ दिए गए हैं। जिन पर अब सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य का 20 फीसद सम्पत्तिकर प्रस्तावित है जोकि विगत वर्ष 15 फीसद के दायरे में थे। औद्योगिक संपत्तियां जो वाणिज्यिक संपत्तियों में परिवर्तित हो गई हैं उन पर 20 फीसद का कर प्रस्तावित है। वाणिज्यिक संपत्तियां पार्किंग, खाली भूमि आदि पर

एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट का ई-प्रेषणः कम्पनी ने केवल इलेक्ट्रानिक पद्धति द्वारा ऐसे सदस्यों को एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2019-20 सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाईट www.hpil.co.in, स्टॉक एक्सचैंज (एनएसई तथा बीएसई) तथा सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया)

यह कम्पनी ई-वोटिंग तथा वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम के दौरान वोटिंग द्वारा सूचना में वर्णित व्यवसायों पर मतदान की सुविधा उपलब्ध करा रही है।

iii यदि कोई व्यक्ति सूचना के प्रेषण के बाद सदस्य बनते हैं तथा कट-ऑफ तिथि को शेयर धारित करते हैं, वे helpdesk.evoting@cdslindia.com

से वंचित नहीं किये गए हों, के लिए एजीएम के दौरान मतदान की सुविधा उपलब्ध होगी।

ऋण वसली अधिकरण-I. दिल्ली 4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 श्री बीर सिंह एवं अन्य

2. श्री इन्दरजीत अरोड़ा, पुत्र श्री जीतेन्दर अरोड़ा, निवासीः सी-3/18, भूतल, सेक्टर-15, दिल्ली-110089 जैसा कि ऊपर नामित आवेदक ने रु. 14,60,632.29 (रुपए चौदह लाख साठ हजार छ. सौ बत्तीस एवं पैसे उन्नीस मात्र) की वसुर्ल के लिए आपके विरुद्ध एक मामला शुरू किया है, तथा जैसा कि इस अधिकरण की संतुष्टि के लिए यह साबित हो चुका है कि आपको सामान्य तरीके से सर्व करना संभव नहीं है। अतएव. विजापन के माध्यम से इस सचना के द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि 25.02.2021 **को** 10.30 **पूर्वा**. में विद्वान रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित हों। ध्यान रहे कि उपरोक्त तिथि को इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर मामले की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थित में ही की जाएगी। (अधिक विवरणों के लिए डीआरटी की वेबसाईट www.etribunal.gov.in देखें या फोन नं. 011-23748473 पर कॉल करें। वर्तमान में जारी महामारी की स्थिति के कारण सभी मामलों पर विचार विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जायेगी तथा इस उद्देश्य सेः i) सभी अधिवक्ता/वादीगण सिसको webexapplication/software डाउनलोड करें;

सेवा में, 1. श्री वीर सिंह, पुत्र श्री मोहन सिंह, निवासी: जी-4/135, सेक्टर-16, रोहिणी, दिल्ली-110089

i) सुनवाई की अगली तिथि अर्थात् रजिस्ट्रार/रिकवरी अधिकारी-I/तथा रिकवरी अधिकारी-II द्वारा विचार की जाने वाली मामलों लिए मीटिंग आईडी तथा पास्वर्ड डीआरटी के आधिकारिक पोर्टल अर्थात् drt.gov.in पर सार्वजनिक सूचना शीर्ष के अंतर्गत आगाग iii) किसी प्रकार की आकरिमकताओं के लिये अधिवक्ता/वादीगण फोन नं. 011-23748473 पर संबंधित अधिकारी से सम्पर्क कर्

मेरे हाथ से तथा इस अधिकरण की महर लगाकर आज 9 नवम्बर, 2020 को दी गई।

भर्ती सूचना

ह सहभागी बनें.						
मद सं.	पद	रिक्तियां				
1.	बिजनेस एनालिस्ट	2				
0	A	0				

संविदात्मक- 3 वर्ष की अवधि के लिए, बैंक के विकल्प के अनुसार विस्तार

www.bankofbaroda.in → Career Page → Current Opportunities

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा सेबी (सचीयन दायित्व एवं उदघाटन अपेक्षा)

कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली. 2014 के नियम 20. कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन)

यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सुचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का शेयर अर्जित करते हैं तथा

ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्नों या समस्याओं के लिये कपया

DIN:00287019

जनसत्ता सवाददाता

की जान गई है।

कार चला

रहे छात्र

ने स्कूटी

सवार को

क्चला

नई दिल्ली, 7

दिसंबर। कनॉट

प्लेस थाना क्षेत्र

को एक कार

चालक ने स्कूटी

सवार शख्स को

टक्कर मार दी।

स्कूटी सवार 53

साल के विनोद

गई। घटना की

सूचना मिलने पर

पुलिस ने आरोपी

सीए के छात्र 30

साल के अंकित

गुप्ता के खिलाफ

मामला दर्ज कर

लिया। वह वसंत

विहार इलाके में

नई दिल्ली

अतिरिक्त उपायुक्त

जिला पुलिस के

ने बताया कि

सोवार देर रात

करीब साढ़े दस

बजे सुचना मिली

चालक ने स्कूटी

में टक्कर मार दी

है। सूचना मिलने

पर पुलिस की

एक टीम मौके

पर पहुंची और

घायल विनोद

कुमार को पास

के आरएमएल

अस्पताल में

लेकर पहुंची,

जहां डॉक्टरों ने

उन्हें मृत घोषित

कर दिया। विनोद

अपने परिवार के

साथ यूसूफ सराय

हौज खास इलाके

में रहते थे। इन

दिनों वे बेरोजगार

थे। वहीं, आरोपी

अंकित अपने

परिवार के साथ

वंतस विहार में

सीए की पढाई

कर रहा है।

रहता है और वह

थी कि जनपथ

पर एक कार

रहता है।

कुमार की मौत हो

इस हादसे में

में रविवार देर रात

नई दिल्ली, 7 दिसंबर।

कोरोना संक्रमण की तीसरी

लहर ढलने के बाद ही लगातार

संक्रमण की दर गिर रही है।

सोमवार को संक्रमण दर में बडी

गिरावट दर्ज की गई है और

संक्रमण का आंकडा 2000 से भी

नीचे चला गया। 24 घंटे में कोरोना

से 1624 मरीज संक्रमित हुए हैं और

इस बीमारी की वजह से 63 मरीजों

इससे पहले संक्रमण की दर कर रही हैं।

By order of the Board

प्रकाशन नोटिस ओ०ए० संख्या 434/2019 डायरी संख्या 554

दिनांक 03 दिसम्बर, 2020 के दिन अधिकरण की मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी।

(CIN: L65993UP1965PLC003082) Registered Office: Hapur Road, Modinagar, Ghaziabad-201204 (U.P.) Tel: 01232-243471, +91-9582388706 E-mail: modipon@modimangal.in,

info@masserv.com.

Place: New Delhi

स्थानः नर्ड दिल्ली

तिथि: 7.12.2020

www.readwhere.com